

प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 13 नवंबर 2018 को किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में वर्ल्ड डायबिटीज दिवस के पूर्व दिवस पर इंडोक्राइनॉलजी यूनिट के डॉ० डी० हिमांशु ने मेडिसिन ओ०पी०डी० में एक डायबिटीज चेकअप एवम जागरूकता कैम्प का आयोजन किया। डॉ० डी० हिमांशु ने केम्प में सामान्य लोगो की शुगर जांच की व्यवस्था भी करवाई जिसमें लगभग 150 लोगो का डायबिटीज चेकअप किया गया। और डायबिटीज रोगी एवम सामान्य जन मानस के बीच इस बीमारी के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। जिसमें विष्णु गुप्ता, मो अंसारी, पुष्प वर्मा को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर डॉ० डी० हिमांशु ने बताया कि इस वर्ष का स्लोगन है परिवार और डायबिटीज। इसके तहत परिवार डायबिटीज के प्रति जागरूक हो तथा परिवार के सदस्य यदि परिवार में कोई शुगर मरीज हो तो जानकारी एवम सावधानी के साथ उसकी देखभाल कर सकें। मेडिसिन विभाग में मधुमेह क्लीनिक की शुरुआत करने वाले डॉ०सी०जी० अग्रवाल को सम्मानित भी किया गया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डायबिटीज एक महामारी है इससे डॉक्टर मरीज दोनों को मुस्तेदी से निबटना पड़ेगा। कार्यक्रम में मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष प्रो० वीरेंद्र आतम ने कहा कि मेडिसिन विभाग में योग्य डॉक्टर एवम संसाधन उपलब्ध है अतः डायबिटीज का उत्तम उपचार विभाग में उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति जिसको यह बीमारी है यँहा इस बीमारी का उपचार करा सकता है। डॉ० अरविंद मिश्रा ने बताया कि शुगर की बीमारी में कभी कभी कोई symtom दिखाई नहीं देते इसलिए समय समय पर खून की जांच कराते रहना चाहिए। और लछड़ दिखने पर जांच करके उपचार लेना चाहिए। डॉ० उस्मान ने बताया कि जीवन मे व्यायाम को शामिल करना चाहिए । कार्यक्रम में वरिष्ठ चिकित्सक डॉ अरविंद मिश्रा, डॉ कौसर उस्मान, डॉ० श्याम चौधरी, डॉ पटेल एवम सामाजिक कार्यकर्ता, संस्थाए, कर्मचारी इत्यादि लोग उपस्थित थे।